



UNIVERSITY OF DELHI  
DELHI-110007

Ref.No.Exam. Br.-IV/Ph.D/Result/2019/22

The following candidates, consequent upon evaluation of their theses submitted for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) on the topic as mentioned against their names and after *viva-voce* examination, have been found qualified for the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) of this University.

SI. No.	Enrolment No.	Name	Title of the Thesis
<b>Faculty of Arts (Department of Hindi)</b>			
269 (10477)	M.Phil-67/10	Ajeet Kumar	“हिन्दी के डायरी- साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन”
270 (10661)	KNC-74/06	Vandana (W)	“हिंदी दलित आत्मकथाओं में स्त्री संबंधी दृष्टियों का अध्ययन”
271 (10260)	SD-98/05	Amit	“मोहन राकेश और सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन”
272 (10524)	KM-436/04	Satya Prakash Singh	“संक्रमणकालीन देश-दशा और उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति के आलोक में विद्यापति का काव्य”
<b>(Department of Modern Indian Languages &amp; Literary Studies)</b>			
273 (10543)	MIL-02/10	Rabiul Islam	“Economic Geography of Little Magazine Publication in West Bengal: A Study of Selected Centers (2000-2010)”
<b>(Department of Psychology)</b>			
274 (10366)	Ph.D-172/10	Anamika Rai (W)	“The Role of Leadership Competencies and Cultural Practices in Relation to Effectiveness of Schools”
<b>Faculty of Mathematical Sciences (Department of Mathematics)</b>			
275 (10428)	Ph.D-78/12	Rajeev Kumar	“Cryptography using Elliptic Curve Groups and Pairings”

Contd..2..

<b>Faculty of Music &amp; Fine Arts</b>			
276 (3289)	M.Phil-117/12	Shyama Kumar Bharti	“भारतीय शास्त्रीय संगीत में विकसित हारमोनियम वादन की विभिन्न शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन”
<b>Faculty of Science (Department of Home Science)</b>			
277 (3139)	LI-179/06	Joshita Lamba (W)	“Investigation of Probiotic Nature of Conventional Indian Fermented Foods”
<b>(Department of Physics &amp; Astrophysics)</b>			
278 (3186)	KC-45/06	Khushboo (W)	“Investigation of fusion and transfer reactions in medium mass nuclei at and near the Coulomb barrier”
<b>Faculty of Technology (Department of Applied Sciences &amp; Humanities)</b>			
279 (3242)	Ph.D-73/2015	Pallavi Mohanty (W)	“Structure, Dynamics and Interactions of Focal Adhesion Kinase in Cardiac Hypertrophy”

**Joint Registrar (Exam)**  
Delhi, the 8<sup>th</sup> July, 2019

**(Prof. Vinay Gupta)**  
**Dean (Examination)**